



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1945 (श10)

(सं0 पटना 819) पटना, मंगलवार, 10 अक्टूबर 2023

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2023

सं0 प्र010— ख0वि0अधि0—04 / 2023—4445—राज्य सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान एवं फोर्टीफायड चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक है।

2. खरीफ विपणन मौसम, 2023—24 अंतर्गत धान एवं चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल अभिकरण के रूप में नामित किया जाता है।

- (i) राज्य अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य अभिकरण के रूप में सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)/व्यापार मंडलों को प्राधिकृत किया जाता है। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रमशः पंचायत/प्रखंड स्तर पर धान का क्रय किया जाएगा तथा अधिप्राप्त धान की मात्रा के समतुल्य फोर्टीफायड चावल तैयार करने हेतु ब्लेंडरयुक्त सम्बद्ध मिलरों को हस्तगत कराते हुए उसके समतुल्य अग्रिम फोर्टीफायड चावल (अधिकतम फोर्टीफायड उसना चावल) प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 15-5/2022 Bihar-BP-II (e- 382195) दिनांक 19.12.2022 के आलोक में राज्य के सभी जिलों में फोर्टीफायड चावल जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। साथ ही, उक्त फोर्टीफायड चावल की गुणवत्ता आदि की जाँच हेतु विहित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य तैयार फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति विहित प्रक्रिया के अनुरूप जौचोपरान्त गोदामों में जमा किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।
- (iii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 3(35)/2021-PY.I दिनांक 20.06.2023 के द्वारा खरीफ विपणन

मौसम, 2023-24 अंतर्गत धान साधारण एवं ग्रेड 'ए0' का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् निर्धारित है :-

1	साधारण धान	2183/- रू0 प्रति क्वींटल
2	धान (ग्रेड- 'ए')	2203/- रू0 प्रति क्वींटल

(iv) खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित फोर्टीफायड उसना तथा फोर्टीफायड अरवा चावल दर प्रभावी होगा।

3. खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम उत्तर बिहार में दिनांक 01.11.2023 से एवं दक्षिण बिहार में दिनांक 15.11.2023 से प्रारंभ होकर 15.02.2024 तक प्रभावी रहेगी तथा अधिप्राप्त धान के समतुल्य फोर्टीफायड चावल (अधिकतम फोर्टीफायड उसना चावल)की प्राप्ति दिनांक 01.11.2023 से 31.07.2024 तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)819-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>